



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, मई 1—मई 7, 2016, शनिवार/वैशाख 11—वैशाख 17, 1938
No. 16] NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2016, SATURDAY/VAISAKHA 11—VAISAKHA 17, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

सा.का.नि. 64.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल समूह “ग” योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, समूह “ग” योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सशस्त्र सीमा बल, समूह “ग” योधक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में,
(क) क्रम संख्या 1 पर आने वाले पद के सामने, स्तंभ (12) के अधीन प्रविष्टियों में सहायक उप-निरीक्षक (पशु चिकित्सा) से संबंधित, “विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 2 पर आने वाले पद के सामने, हैड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) से संबंधित :-

(i) स्तंभ (11) के अधीन, प्रोन्नति शीर्षक से संबंधित प्रविष्टियों में, मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन बैंड 1 (5200-20200 रुपये) + ग्रेड वेतन 2000 रु0 में ऐसे कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) जिन्होंने पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और समय-समय पर महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा यथाविनिर्दिष्ट छह मास का पशु चिकित्सा काडर पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अर्हित किया हो;”

(ii) स्तंभ (12) के अधीन प्रविष्टियों में, “विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 3 पर आने वाले पद के सामने, कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) से संबंधित, स्तंभ (12) के अधीन प्रविष्टियों में, “विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

[फा.सं.4/3/एसएसबी/सीएससी/समूह“ग”/बीएन/2015/एसएफएस]

विनोद कुमार, अवर सचिव (पुलिस-II) डिवीज़न

fVli . k— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 709(अ) तारीख 22 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 235, तारीख 29 सितम्बर, 2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd May, 2016

G. S. R. 64.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sashastra Seema Bal Group ‘C’ Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Group ‘C’ Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Sashastra Seema Bal Group ‘C’ Combatised (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment Rules, 2011,-

(a) against the post appearing at serial number-1, relating to Assistant Sub-Inspector (Veterinary) in the entries under column (12), for the words and brackets “Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of ”, the words and brackets “Departmental Promotion Committee (for considering promotion)” shall be substituted ;

(b) against the post appearing at serial number-2, relating to Head Constable (Veterinary),-

(i) under column (11), in the entries relating to the heading Promotion, for items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely :-

“Constable (Veterinary) with five years regular service in pay band-1 (Rs. 5200-20200) plus grade pay Rs. 2000/- and having successfully qualified six months Veterinary Cadre Course or any other course as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time” ;

- (ii) in the entries under column (12), for the words and brackets “Departmental Promotional Committee (for promotion / confirmation) consisting of ”, the words and brackets “Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)” shall be substituted;
- (c) against the post appearing at serial number-3, relating to Constable (Veterinary), in the entries under column (12), for the words and brackets “Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of ”, the words and brackets “Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) “ shall be substituted.

[F. No.4/3/SSB/CSC/Gp. ‘C’/BN/2015/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Police-II) Division

Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.709 (E), dated the 22nd September, 2011 and subsequently amended vide G.S.R. 235, dated the 29th September, 2012.